



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur

Claim Form for Mobile/Internet Reimbursement
(मोबाईल/इंटरनेट प्रतिपूर्ति के लिए दावा पत्र)

Name (नाम):	
Department (विभाग):	Designation (पद):
DOJ (नियुक्ति दिनांक):	Pay Level (वेतन स्तर):

To

(सेवा में),

The Administrative Officer
प्रशासनिक अधिकारी,
Reimbursement Section, Administrative Block
(प्रतिपूर्ति विभाग, प्रशासनिक खंड),
AIIMS, Jodhpur (एम्स, जोधपुर) – 342 005

Kindly arrange to reimburse Telephone/Mobile/Internet charges of ₹_____ of the quarter April - June/July - September/October - December/January - March details given below. The amount may be credited to my bank account.

(कृपया त्रैमासिक अप्रैल-जून/जुलाई-सितम्बर/अक्टूबर-दिसम्बर/जनवरी-मार्च के नीचे दिये गये विवरणानुसार टेलीफोन/मोबाईल/इंटरनेट शुल्क प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था करें।.....(राशि मेरे बैंक खाते में क्रेडिट की जा सकती है।)

Mobile No.(मोबाईल नं०)

Internet/Broadband(इंटरनेट/ब्रोडबैंड)No.....

Sr. No. (क्र.स.)	Month (माह)	Billed Amount(बिल राशि)		Total (कुल)	Claimed Amount (Max. Rs. 1500 p.m.) (दावा राशि) (अधिकतम ₹ 1500 प्रतिमाह)
		Mobile (मोबाईल)	Internet/Broadband (इंटरनेट/ब्रोडबैंड)		
1					
2					
3					
Total-Mobile/Internet Charges (कुल-मोबाईल/इंटरनेट शुल्क)					

1. Certified that the above telephones are used by me for Office Purpose - as Mobile Services or as Internet Services.
2. Certified that I have incurred the above expenditure towards telephone charges during the period mentioned above.

Date (दिनांक):

Signature (हस्ताक्षर):

Note: 1. Self-certified monthly bill should be attached along with this form.

(इस पत्र के साथ स्वप्रमाणित मासिक बिल संलग्न करें)

2. Reimbursement will be made on Quarterly Basis on certification in prescribed proforma.

(निर्धारित प्रोफार्मा में प्रमाणीकरण के बाद तिमाही आधार पर प्रतिपूर्ति की जायेगी।)

3. Time limit for submission of claim: 1-31st July for claims of April to June,

(दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा)

1-31st October for claims of July to September,

1-31st January for claims of October to December,

1-30th April for claims of January to March.